



MITSU CHEM PLAST LIMITED

Registered Office: 329, Gala Complex, 3rd Floor, Din Dyal Upadhyay Marg, Mulund (W), Mumbai – 400 080.

Email: investor@mitsuchem.com | **Phone No:** 022-2592 0055.

CIN: L25111MH1988PLC048925

NOTICE

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Tuesday, September 20, 2022 at 4.00 p.m. IST through Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM").

In view of the continuing COVID-19 pandemic, General circulars 2/2022 and 19/2021, other circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by SEBI (hereafter referred to as "Circulars") and all other applicable laws, permitted the holding of AGM through VC or OAVM, without the physical presence of the members at a common venue. In compliance with these circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the members of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report 2021-22 will be sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company / Registrar & Share Transfer Agent ("R&T Agent") / Depositories in accordance with the aforesaid MCA circulars and SEBI circulars. The Notice of the AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 will also be available on the Company's website at www.mitsuchem.com and on the website of BSE Ltd. at www.bseindia.com.

Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. The Company is providing remote e-Voting facility ("remote e-Voting") to all its Members to cast their votes on all resolutions as set out in the Notice of the AGM. Members have the option to cast their vote on any of the resolutions using the remote e-Voting before and during the AGM. Detailed procedure for remote e-Voting during the AGM will be provided in the Notice of the AGM.

Members who have not updated their bank account details for receiving the dividends directly in their bank accounts and who have not yet registered their email addresses are requested to get their details registered / updated with Bigshare Services Pvt. Ltd., Registrar and Transfer Agent of the Company, on a temporary basis at <https://bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx>.

For MITSU CHEM PLAST LIMITED

Sd/-

JAGDISH DEHIA

CHAIRMAN AND WHOLE-TIME DIRECTOR

Place: Mumbai

Date: August 20, 2022



MOIL LIMITED

(Formerly Mangalore Ore India Ltd.)
(A Government of India Enterprise)
"MOIL BHAVAN" - 1-A, Katol Road, Nagpur - 440013
CIN:L59999MH102620112399

E-TENDER NOTICE

Online tenders are invited through MSTC Portal from reputed and experienced Contractors for undertaking the following works:-

Sr. No.	Description & Place of work	e-Tender No.	Estimated Cost (Rs. in Crore)	Amount of EMD (Rs. in Lacs)
1.	Sinking of East and West Ventilation shafts having 4.5m. dia. and depth as 138m. and 142m. respectively and allied works at Ukwa Mine of MOIL.	MOIL/22-23/ET/56	29.81	50.00

➤ For details of Tender document and schedule of tender visit website www.moil.nic.in and Central Public Procurement Portal (CPPP) of Govt. of India (www.eprocure.gov.in).

➤ For participation in the tender please visit website of MSTC, www.mstccommerce.com/eprocure/moil

➤ Addendum/Corrigendum if any will be uploaded at website only, there shall not be any paper publication of addendum/Corrigendum.

MOIL - Adding Strength to Steel



General Manager (Technical)

(हर एक काम देश के नाम)



MSTC LIMITED

(A Govt. of India Enterprise)
CIN : L27320WB1964GQ026211

Registered Office: Plot No. CF-18/2, Street No. 175, Action Area 1C New Town, Kolkata - 700156, West Bengal

Phone : 91-33-2340-0000, **Website :** www.mstcindia.co.in

Email : cssect@mstcindia.in

NOTICE FOR CONVENING 57TH ANNUAL GENERAL MEETING THROUGH VC/OAVM

Members may please note that 57th Annual General Meeting ("AGM") of the members of MSTC Limited ("Company") will be held on **Tuesday, 27th September, 2022 at 11:00 A.M.** (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Video Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 & 02/2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 & SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 issued by the Securities Exchange Board of India (SEBI), to transact the businesses set out in the Notice calling the AGM.

In compliance with the above MCA & SEBI Circulars, electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent through email mode only to all those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Members are requested to update their email address immediately to enable the company to send the copy of annual report and notice of AGM to the shareholders. The Notice of AGM and Annual Report will also be available on the Company's website at www.mstcindia.co.in and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL at <https://www.evoting.nsdl.com>. Members can attend and participate in the AGM through the VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM will be provided in the Notice of AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the Companies Act, 2013.

Manner of registering/updating email addresses:

- Members holding share(s) in physical mode** are requested to send duly filled up and signed Form ISR-1 mentioning e-mail id alongwith requisite enclosures, through email to MSTC Limited at cssect@mstcindia.in or to the RTA, Alankit Assignments Limited at virenders@alankit.com. Format of Form ISR-1 can be downloaded from the link <https://www.mstcindia.co.in/cms/Investor/Investor-Service-Related-Form.pdf>.
- Members holding share(s) in Demat/Electronic mode** are requested to register/update their e-mail addresses with their respective Depository Participants for receiving all communications from the Company electronically.

Manner of registering/updating bank details for receiving dividends directly in bank accounts through NECS:

- Members holding share(s) in physical mode** are requested to send duly filled up and signed Form ISR-1 mentioning bank details alongwith requisite enclosures and duly filled and signed Form ISR-2, through email to MSTC Limited at cssect@mstcindia.in or to the RTA, Alankit Assignments Limited at virenders@alankit.com. Format of Form ISR-1 & Form ISR-2 can be downloaded from the link <https://www.mstcindia.co.in/cms/Investor/Investor-Service-Related-Form.pdf>.
- Members holding share(s) in Demat/Electronic mode** are requested to register/update their bank details with their respective Depository Participants.

Manner of casting Vote through e-voting:

- Shareholders will have an opportunity to cast their votes remotely on the businesses as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting system from Friday, September 23, 2022 at 9:00 A.M. till Monday, September 26, 2022 at 5:00 P.M. The facility for e-voting will also be made available during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting and e-voting during the time of AGM will be provided in the Notice of AGM.
- The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the members through e-mail after successfully registering their email addresses in the manner provided above.

Manner of attending AGM through VC/OAVM:

Facility to attend the AGM through VC/OAVM will be available through the NSDL e-Voting system at www.evoting.nsdl.com. Members are requested to carefully read the notes set out in the Notice of the AGM with respect to instructions for attending the AGM through VC/OAVM and for remote e-voting and e-voting at the AGM.

This notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable circulars of the MCA and SEBI.

Date : 20.08.2022

Place : Kolkata

For MSTC Limited

Ajay Kumar Rai

Company Secretary & Compliance Officer

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the Non-Banking Financial Companies (Approval of Acquisition or Transfer of Control) Directions, 2015 issued through RBI circular RBI/2015-16/122 DNBR (PD) CC. No. 065/03.10.001/2015-16, dated 9th July, 2015, approval of Reserve Bank of India has been received on 23rd October, 2020 for change in management and shareholding/control of M/s Indiabulls Rural Finance Private Limited (hereinafter referred to as the "Company"), a company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956, having its registered office at One International Center, Tower – 1, 4th Floor, S. B. Marg, Elphinstone (W), Mumbai – 400013, Maharashtra, and having NBFC Certificate of Registration No. B- 13.01706 dated February 5, 2004, issued by the Reserve Bank of India.

SORIL Infra Resources Limited, a company incorporated under the provisions of the companies Act 1956, having its registered office at Plot No. 448-451 Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon, Haryana-122016 along with other non-beneficiary Shareholders of the Company (hereinafter collectively referred to as "the transferees") to transfer 4,17,97,400 (Four crores seventeen Lakh Ninety Seven Thousand Four Hundred Only) Equity Shares of Rs. 10/- (Rupees Ten Only) each comprising of 100% of the total paid up share capital of the Company to M/s Indiabulls Enterprises Limited, a Company incorporated under the provisions of Companies Act, 1956, having its registered office at Plot No. 448-451 Udyog Vihar, Phase-V Gurgaon-122016 (hereinafter referred to as "the transferee").

The reason for the transfer of shareholding/control of the company is by virtue of the order of Honorable National Company Law Tribunal, Chandigarh Bench ("NCLT") dated 21st July, 2022 (and effective from 3rd August, 2022) approving the scheme of arrangement in favour of the present shareholder and 100% Holding company M/s SORIL Infra Resources Limited ("SORIL") and the Ultimate holding company M/s Yaari Digital Integrated Services Limited ("YDISI") to streamline the operations and ownership structure of M/s Yaari Digital Integrated Services Limited and its subsidiaries, and to have separate focused insurance business and non-insurance businesses (including finance business, being conducted through Indiabulls Rural Finance Private Limited), as they have different risk/ rewards and to consolidate the non-insurance business of the group into a resulting company M/s Indiabulls Enterprises Limited. Accordingly as per the provisions of the scheme the present owners of the Company i.e. M/s SORIL Infra Resources Limited shall cease to exist from the effective date of the scheme and M/s. Indiabulls Enterprises Limited shall own the 100% shares of M/s Indiabulls Rural Finance Private Limited and consequently become the holding Company.

Since there will be no cash consideration involved in it and the proposed change in control of the company to Indiabulls Enterprises Limited is to be achieved through a cashless Scheme of arrangement without any change in the Management of the Company as all the existing directors of the company continue their association with the Company in the capacity of being the Director.

If anybody has any objection in respect of the above mentioned change of ownership and control, the same may be communicated in writing, within 30 days from the date of publication of this notice to the Reserve Bank of India, Department of Non-Banking Supervision, Mumbai Regional Office, 3rd Floor, Reserve Bank of India, Opp. Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai 400008, with a copy to the Company at its registered office at One International Center, Tower – 1, 4th Floor, S. B. Marg, Elphinstone (W), Mumbai – 400013, Maharashtra.

For and on behalf of
Indiabulls Rural Finance Private Limited
Sd/-
Director



INDOCO REMEDIES LIMITED

CIN: L85190MH1947PLC2009913

Regd. Office: Indoco House, 166 CST Road, Kalina Santacruz East, Mumbai 400098.

Tel: +91 22 62871000/6879 | **Email:** compliance.officer@indoco.com | **Website:** www.indoco.com

NOTICE

Notice is hereby given that the Seventy Fifth Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Thursday, 22nd September, 2022 at 10.30 a.m. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with General Circulars 14/2020 dated 08th April, 2020, 17/2020 dated 13th April, 2020, 20/2020 dated 05th May, 2020, 02/2021 dated 13th January, 2021, 19/2021 dated December 8, 2021 and 2/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred to as "Circulars").

In accordance with the aforesaid Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 is being sent by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant. The requirement of sending physical copies has been dispensed with pursuant to the aforesaid Circulars. The Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 will also be available on the website of the Company at www.indoco.com. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the Annual General Meeting are provided in the Notice of the Annual General Meeting.

Remote e-voting facility is provided to Members to cast their votes on any of the resolutions set out in the Notice of the AGM. Members have the option to cast their vote using the remote e-voting facility prior to the AGM or during the AGM. Detailed procedure for remote e-voting is provided in the Notice of the AGM.

Members who have still not registered their E-mail ID and not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend can get their E-mail ID and Bank account registered by following the below mentioned process:

- In the case of Shares held in Physical mode:**
Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit.
- In the case of Shares held in Demat mode:**
The shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses can cast their vote through remote e-voting prior to or during the AGM by following below procedure

Shareholders may send a request to compliance.officer@indoco.com for procuring user ID and password for e-voting.

- In case shares are held in physical mode, please provide Folio Number, name of member, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card).
- In case shares are held in demat mode, please provide DP ID and Client ID (16-digit DP ID + Client ID or 16-digit beneficiary ID), name of member, client master or copy of consolidated account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAAR (self-attested scanned copy of Aadhaar Card).
- If you are an individual shareholder holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at Note No. 27.16, Login method for e-Voting and voting during the meeting for Individual Shareholders holding securities in demat mode.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, the Registrar of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 16th September, 2022 to Thursday, 22nd September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting and for payment of final dividend for financial year 2021-22.

Shareholders may note that the Board of Directors in their meeting held on 17th May, 2022 has recommended a final dividend of Rs. 2.25 (including a one-time special dividend of Rs. 0.75) per equity share. The dividend, if declared, will be payable on and from 27th September, 2022, to those Members whose names are registered in the Register of Members of the Company as on Thursday, 15th September, 2022 (Record Date) and to the beneficiary holders as per the beneficiary list as on Thursday, 15th September, 2022 (Record Date) provided by the depositories, subject to deduction of tax at source, where applicable.

The Company provides the facility to the Shareholders for remittance of dividend directly in electronic mode through National Automated Clearing House (NACH). In view of the COVID-19 pandemic and resultant difficulties involved in dispatching of physical dividend warrants, Shareholders holding shares in physical form and desirous of availing this facility of electronic remittance are requested to provide their latest bank account details (Core Banking Solutions Enabled Account Number, 9 digit MICR and 11 digit IFSC Code), along with their Folio Number, to the Company or the Registrar & Share Transfer Agents of the Company viz. Link Intime India Private Limited. Shareholders holding shares in dematerialized form are requested to provide the said details to their respective Depository Participant(s). In case the Company is unable to pay the dividend to any shareholder by the electronic mode, due to non-availability of their latest bank account details, the Company shall dispatch the dividend warrant/ cheque to such shareholder by post.

For Indoco Remedies Limited


Sd/-

Jayshankar Menon

Company Secretary & AVP (Legal)

Place : Mumbai

Dated : August 22, 2022



Vijay TEXTILES LIMITED

Registered Office: Surya Towers, Ground Floor, 104, Sardar Patel Road, Secunderabad-500 003.

Tel: 27848479/ 27844086 **Facsimile:** +91 40 2784 6849

E-Mail: info@vijaytextiles.in

CIN: L18100TG1990PLC019373

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND THREE YEARS ENDED 30TH JUNE, 2022

		(Rs. in Lakhs)			
S. No	Particulars	Quarter ended 30.06.2022	Quarter ended 31.03.2022	Quarter ended 30.06.2021	Year ended 31.03.2022
		Un-Audited	Audited	Un-Audited	Audited
1.	Total income from operations	615.95	633.12	479.48	3307.82
2.	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(324.46)	(512.16)	(611.77)	(1642.31)
3.	Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Extraordinary items)	(196.10)	(435.42)	(425.92)	(1151.40)
4.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	(196.10)	(421.52)	(425.92)	(1137.50)
5.	Equity Share Capital (of Rs.10/- each)/1830.05	1830.05	1830.05	1830.05	
6.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as show in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-
7.	Earnings Per Share(before extraordinary items) (of Rs.10/- each)	(1.07)	(2.38)	(2.33)	(6.29)
	Diluted :	(1.07)	(2.38)	(2.33)	(6.29)
8.	Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each)	(1.07)	(2.38)	(2.33)	(6.29)
	Diluted :	(1.07)	(2.38)	(2.33)	(6.29)

NOTE:-1 The above is an extract of the detailed format of un-audited financial results for the quarter ended 30th June, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the un-audited results for the quarter ended 30th June, 2022 are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com).

2. Figures of the previous quarters/year have been re-grouped and re-classified wherever necessary to correspond with current year's presentation.

Place : Secunderabad

Date : 20.08.2022

Sd/-

VIJAY KUMAR GUPTA

Managing Director

PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES INDIA LIMITED

Registered Office: 3rd Floor, Tower A, DLF IT Park, 08 Block AF, Major Arterial Road, New Town (Rajarhat), Kolkata, West Bengal- 700156, India

Corporate Office: Unit No. 401, 4th floor, Tower 3, Bharti Worldmark, Maidawar Road, Sector 65, Gurgaon, Haryana - 122018

Tel:- +91 124 4606004 **CIN:** U29308WB2020PLC238116 **Website:** www.domesticappliances.philips.co.in

INFORMATION REGARDING 2ND (SECOND) ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING / OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

This is to inform you that the Second (2nd) Annual General Meeting of the Members of the Company will be held on Tuesday, September 27, 2022 at 11:30 A.M. IST ("AGM") through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with enabling circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs to transact the business that will be set forth in the Notice of the Meeting.

The Notice of the Second (2nd) AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent by electronic mode to all the members whose email addresses are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Kfin Technologies Limited ("RTA"). Members holding shares in dematerialized form, are requested to register their email address and mobile number with their depository participants and members holding shares in physical form are requested to furnish details of email address and mobile number to the RTA at evoting@kfinitech.com.

The notice of the Second (2nd) AGM along with Annual Report for the financial year 2021-22 shall also be available on the website of the Company at www.domesticappliances.philips.co.in and on the website of the RTA at www.evoting.kfinitech.com or www.emettings.kfinitech.com being the agency appointed by the Company for providing e-voting and VC/OAVM facility for the AGM.

Members will have an opportunity to cast their votes remotely on the business as set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting. The manner of remote e-voting for members holding shares in dematerialization form, physical form and members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM. The facility for e-voting will also be provided at the AGM and members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting, will be able to vote at the meeting.

The final dividend as recommended by the Board of Directors, if approved by the Members at the AGM, shall be paid to those shareholders who are holding shares as on the Record Date i.e. Monday, 19th September 2022, in accordance with the timelines under the Companies Act, 2013, electronically to the members who have updated their bank details for receiving dividend through electronic means. For members who have not updated their bank details, dividend warrants/demand drafts will be dispatched to their registered addresses. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to update their KYC details/bank details with their depository participants where the shares are held in dematerialized form and with the Company's RTA, Kfin Technologies Limited, where the shares are held in physical form to receive dividend directly into their bank account on the payout date.

Members whose shareholding are in the physical mode are requested to opt for the Electronic Clearing System (ECS) mode to receive dividend on time. We urge the members to utilize the ECS for receiving the dividends.

Shareholders who wish to register their email address/ bank account mandate may follow the below instructions:

Dematerialized Holding	Register/ Update the details if your demat account, as per process advised by your Depository Participant
Physical Holding	Register/ Update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant forms with Registrar and Transfer Agent of the Company, Kfin Technologies at einward.ris@kfinitech.com

For Philips Domestic Appliances India Limited


Sd/-

Anil Chandak | DIN: 06896696

Director and Chief Financial Officer

Date: 22 August 2022

Place: Kolkata



SITI NETWORKS LIMITED

Corp. Office: UG Floor, FC 19 & 20, Sector 16A, Film City – 19, Noida – 201301, U.P

Regd. Office: Unit No.38, 1st Floor, A Wing, Madhu Industrial Estate, P.B. Marg, Worli, Mumbai -400013

E-mail: csandlegal@siti.esselgroup.com, CIN:L64200MH2006PLC160733,

Website: www.sitinetworks.com; **Tel:** 0120 – 4526700; 4032699

NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that 16th Annual General Meeting (AGM) of the Equity Shareholders of the Company will be held on Monday, the 12th day of September 2022 at 3:00 p.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM of the Company.

The AGM will be held through VC/OAVM without physical presence of the shareholders in compliance with applicable provisions of the Companies Act read with General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 8, 2021, 21/2021 dated December 14, 2021 and 2/2022 dated May 5, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular Nos. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 (hereinafter collectively referred to as "SEBI Circulars").

The Annual Report for the financial year 2021-22 comprising *inter-alia* Notice of the Annual General Meeting, Audited Financial Statements on a standalone and consolidated basis, Directors' Report & Auditor's Report for the financial year ended March 31, 2022 and other documents required to be attached therewith has been sent to the Members, whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s), on August 12, 2022, through electronic mode pursuant to the provisions of Sections 101 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, and Rules made thereunder and applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with MCA Circulars and SEBI Circulars. The aforesaid documents (Annual Report 2021-22) are also available on the Company's website www.sitinetworks.com, on the website of the Stock Exchange(s) i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and also on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

In compliances with Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, MCA Circulars and SEBI Circulars, the Company is pleased to provide to all its members, the facility to exercise their vote on all the resolutions set forth in the Notice of AGM of the Company, electronically (remote e-Voting) through e-voting facility provided by Central Depository Services (India) Limited ("CDSL").

Remote E-voting facility for all items of business contained in the Notice of AGM shall commence from September 8, 2022 (Thursday) at 9.00 a.m. and will end on September 11, 2022 (Sunday) at 5.00 p.m. Remote E-voting module shall not be allowed beyond the said date and time. The remote E-voting module shall be disabled by CDSL thereafter, the members shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on September 11, 2022 (Sunday). During this period of remote e-Voting, Equity Shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialised form as on the Cut-Off date of September 5, 2022 (Monday), shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through electronic means and the voting rights of the members shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-Off date.

The facility for voting through electronic means will also be made available at the AGM. The members who will be present in the AGM through VC / OAVM and have not already cast their vote(s) through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote during the AGM.

Any person, who acquires Equity Shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of Notice of AGM and holding shares as on Cut-Off date i.e. Monday, the 5th day of September 2022 may follow steps mentioned in Notice of AGM. However, if a member is already registered with CDSL for remote e-voting then such member you (member) may use your existing USER ID and Password and cast your vote.

The Board of Directors have appointed M/s Amit Agarwal & Associates, Practicing Company Secretaries (having Firm Registration No. 12001DE191600) as a Scrutiniser to scrutinise the remote e-voting process at AGM in a fair and transparent manner and for conducting the scrutiny of the votes cast.

The Members, who have cast their vote by remote e-Voting prior to AGM, may also attend AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The facility for e-voting shall be made available at AGM and the members attending AGM, who have not cast their vote by remote e-Voting prior to AGM, shall be able to vote at AGM through electronic means.

In case you have not registered your e-mail address, please follow the below instructions:

Shareholders holding physical shares

The members of the Company holding Equity Shares of the Company in physical Form and who have not registered their e-mail addresses may get their e-mail addresses registered with Link Intime India Pvt. Ltd., by clicking the link: <https://linkintime.co.in/emailreg> / email_register.html in their web site www.linkintime.co.in at the Investor Services tab by choosing the e-mail / Bank Registration heading and follow the registration process as guided therein. The members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, mobile number and e-mail id and also upload the image of share certificate in PDF or JPEG format. (up to 1 MB). On submission of the Shareholders details an OTP will be received by the Shareholder which needs to be entered in the link for verification.

Shareholders holding shares in Demat form

For registration of e-mail address, the Members are requested to register their e-mail address, in respect of demat holdings with the respective Depository Participant (DP) by following the procedure prescribed by the Depository Participant.

For details relating to remote e-Voting and attending meeting through VC/OAVM, please refer to Notes including Note Nos. 25 and 26 forming part of the Notice of AGM. The Notice of AGM is available as part of Annual Report on the website of the Company at www.sitinetworks.com and on the website of CDSL at www.evotingindia.com and on the website of the Stock Exchange(s) i.e. BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively.

The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notes forming part of the Notice of AGM.

Helpdesk

"An Underdog Fights For Every Inch" Says Rishi Sunak In New Campaign Video

LONDON: (AGENCY)

Two weeks before the UK's Conservative Party leadership election is set to draw to a close, finalist Rishi Sunak's team are promoting a new campaign video cashing in on his "underdog" status with rival Liz Truss' firm lead in the race to succeed Boris Johnson. The video, first used to introduce Rishi Sunak at a hustings event in Manchester on Friday night, shows the former Chancellor at a series of campaign events since the race began last month and addressing Tory members who are voting for a new party leader to take charge as British Prime Minister on September 5.

"I'll keep fighting for every vote until the final day," Mr Sunak tweeted with the video, which counts down 100 events in 30 days to reach 16,000 party members on the campaign trail. The video shows the 42-year-old British



Indian former minister interacting with voters and was also seen catching a quick power nap on a bench as a voiceover praises his efforts to "fight for every inch." "They say beware the underdog," because an underdog has got nothing to lose. An underdog fights for every inch," the voiceover says. "They work harder, stay longer, think smarter;

underdogs don't give up, they'll do the difficult things and they never, ever get complacent," it adds. It comes as most recent surveys of Tory members cast- ing postal and online ballots in the election and bookie odds strongly indicate a Truss victory, who is campaigning on a tax-cutting plan to address the economic crisis amid soaring prices

in the UK. Former minister Michael Gove became the most recent senior Tory grandee to warn that her plans were a "holiday from reality" as he endorsed Mr Sunak's focus on inflation busting. According to a report in the 'Observer' on Sunday, more former Cabinet members from Truss' own party have expressed "jitters" over the

current Foreign Secretary's plans. One unnamed former minister told the paper they were "worried" about the prospect of Truss being handed the keys to No. 10 Downing Street, adding "Members are going one way with Liz, the country at large, the other." "If she carries on with full-on culture wars and the anti-woke stuff, as well as the economic stuff, she will just come across as Boris without the charm. Then she will turn off people in the blue wall," said another referring to the northern England seats won over by the Tories from Labour in the 2019 general election.

Meanwhile, the Opposition Labour Party, enjoying a surge in popularity among the wider British electorate. A new Opinion poll for the 'Observer' gives Labour and its leader, Sir Keir Starmer, a solid poll boost on the back of his policy to freeze the energy price cap in an effort to help those struggling.

Imran Khan Accused Of Hate Speech, His Live Speeches Banned In Pak

ISLAMABAD: (AGENCY)

Pakistan's media watchdog has banned broadcasting live speeches of former prime minister Imran Khan on all satellite television channels with immediate effect, hours after he threatened state institutions and government officials while addressing a rally in Islamabad. Khan, while addressing a public gathering here on Saturday, threatened to file cases against top police officials, a woman magistrate, Election Commission of Pakistan and political opponents over the treatment meted out to his aide Shahbaz Gill, who was arrested last week on charges of sedition.

The Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA) in a communication issued on Saturday said that television channels despite repeated warnings had failed to implement a time-delay mechanism to stop the broadcast of material against 'state institutions'.

"It has been observed that Mr Imran Khan, Chairman Pakistan Tehreek-e-Insaf, in his

speeches/statements is continuously alleging state institutions by levelling baseless allegations and spreading hate speech



through his provocative statements against state institutions and officers which is prejudicial to the maintenance of law and order and is likely to disturb public peace and tranquillity," it said.

The regulator said Khan's speeches were in violation of Article 19 of the Constitution and against the code of conduct for media. "The competent authority i.e. Chairman PEMRA in view of the above mentioned background and reasons, in exercise of delegat-

ed powers of the authority vested in Section 27(a) of the PEMRA Ordinance 2002 as amended by PEMRA (Amendment) Act



2007, hereby prohibits broadcast of live speech of Imran Khan on all satellite TV channels with immediate effect," it added.

PEMRA, however, said Khan's recorded speech would only be permitted to be aired after an effective delay mechanism to ensure monitoring and editorial control Saturday's rally was organised by Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf party to express solidarity with Gill and stage a protest against what Khan claimed was "blatant fascism".

American Filmmaker, Afghan Producer Detained By Taliban: Report

NEW YORK: (AGENCY)

A New York-based media watchdog has called the Taliban to immediately release American journalist and independent filmmaker Ivor Shearer and Afghan producer Faizullah Faizbakhsh and cease detaining journalists. On August 17, Shearer and Faizbakhsh were filming in the Shermar area of District



10 in Kabul where a US drone strike killed an Afghan leader Ayman al-Zawahiri earlier in August when several security guards stopped them, according to the Committee to Protect Journalists (CPJ).

Congress-funded broadcaster Voice of America-Dari and two journalists familiar with the case, who spoke to CPJ on the condition of anonymity, citing fear of the Taliban's reprisal. "The guards questioned them about their activities and checked their work permits, ID cards, Afghan passports; they then confiscated the journalists' cell phones, detained them for a couple of hours, and repeatedly called them 'American spies,'" according to the journalists familiar with the

case, said CPJ. The security officers then called Taliban intelligence; around 50 armed intelligence operatives arrived, who blindfolded Shearer and Faizbakhsh and transferred them to an unknown location, the journalists familiar with the case said.

"The Taliban's increasing pressure and escalating numbers of detentions of journalists and media workers, including the detention of American filmmaker Ivor Shearer and his Afghan colleague Faizullah Faizbakhsh, show the group's utter lack of commitment to the principle of freedom of the press in Afghanistan," said CPJ Program Director Carlos Martinez de la Serna. "Taliban officials must immediately release Shearer and Faizbakhsh and stop their intimidation and pressure on the press in Afghanistan."

In February 2022, Shearer arrived in Afghanistan on a one-month visa after receiving a work permit from the Taliban Ministry of Foreign Affairs to produce a documentary about the last 40 years of Afghanistan's history, according to the journalists familiar with the case. Shearer's film and video work has been shown across the US and international in museums and film festivals.

Somali Forces End Deadly Hotel Siege: Report

MOGADISHU: (AGENCY)

Somali forces have ended a deadly siege by Al-Shabaab jihadists at a hotel in the capital Mogadishu that lasted about 30 hours, a security commander told AFP around midnight Saturday. At least 13 civilians have been killed and dozens wounded since militants from the Al-Qaeda affiliate unleashed a gun and bomb attack on the popular Hayat Hotel on Friday evening, according to Somali officials.

The security forces have ended the siege now and the gunmen are dead, we've had no incoming gunfire from the building in the past hour," the commander told AFP on condition of anonymity.

He gave no further information about the total number of civilian or security casualties or how many Al-Shabaab fighters had been killed, saying the government would give a press briefing on Sunday morning.

The building still needed to be cleared of any explosives that may have been planted, he added. This was the biggest attack in Mogadishu since Somalia's new President Hassan Sheikh Mohamud took office in June and underscores the huge challenge of trying to crush the 15-year insurrection by the Islamist militant group.

The hotel, a popular spot for government officials, has been destroyed after security forces pounded it with heavy weapons late Saturday in a bid to eliminate the assailants who were holed up there for a second straight night. Witnesses watching the drama unfold from the rooftop of another building said they saw flames tear through the hotel during the bombardment by security forces, with heavy explosions and gunfire reported. Scores of people were trapped when the assault began and although officials said dozens had been rescued, including children, it is not known how many were still inside when the siege ended. Al-Shabaab, which has carried out numerous deadly attacks in its war



against the fragile government in the Horn of Africa nation, has claimed responsibility.

Security official Mohamed Abdulkadir had told AFP earlier the number of civilians confirmed to have died was 13, while police officer Ibrahim Duale put the toll at more than 10. The director of Mogadishu's main trauma hospital, Mohamed Abdurrahman Jama, said it was treating at least 40 people wounded in the hotel attack and a separate mortar strike on a seaside area, Hamar Jabab. Among those critically wounded are a newlywed bride and her groom and a family of three children, a mother and their father, Hamar Jabab district commissioner Mucawiyah Mudey told AFP.

One woman, Hayat, said three young relatives aged between four and seven were found by security forces hiding in a hotel toilet in a state of shock but were later reunited with their family. Another survivor told AFP he and some colleagues had performed evening prayers before taking tea in one of the hotel's open spaces when they heard the first explosions Friday, the start of the weekend in the mainly Muslim country. "I managed to reach a nearby exit gate away from the gunmen," Hussein Ali said. The gunmen started firing and I could hear

the shots behind me, but thanks to God... we managed to escape." Somalia's allies including the United States, Britain and Turkey as well as the UN have strongly condemned the attack, as has ATMIS, the African Union force tasked with helping Somali forces take over primary responsibility for security by the end of 2024. Witnesses had reported at least two powerful explosions on Friday as gunmen burst into the hotel. Police said the initial blast was caused by a suicide bomber who forced his way into the hotel with other gunmen.

A second explosion occurred just minutes later, witnesses said, inflicting more casualties as rescuers, security forces and civilians rushed to the scene. Al-Shabaab spokesman Abdiaziz Abu-Musab told the group's Anadolu radio earlier Saturday that its forces were still in control of the building and that they had "inflicted heavy casualties". In a statement by the group's news agency cited by the SITE Intelligence monitoring group, the jihadists claimed to have held hostages during the siege including government and security officials. Al-Shabaab has carried out several attacks in Somalia since May 2016 took office and last month launched strikes on the Ethiopia border.

Xi Jinping Asked Joe Biden To Prevent Nancy Pelosi's Taiwan Visit: Report

WASHINGTON: (AGENCY)

Chinese President Xi Jinping asked his US counterpart Joe Biden, during last month's phone conversation, to prevent US House Speaker Nancy Pelosi from visiting Taiwan, The Washington Post reported on Saturday citing White House officials. But Xi's concern was rebuffed and he was warned against Beijing's "provocative" actions if the visit were to take place, the report added.

The US President told his Chinese counterpart that he "could not oblige" as the US Congress is an independent branch of government and that Pelosi would make her own decisions about foreign trips, the newspaper said.

Biden also warned his Chinese counterpart against taking "provocative and coercive" actions if the US House speaker's visit were to take place. "Members of Congress

have gone to Taiwan for decades and will continue to do so. Speaker Pelosi has every right to go and her visit is consistent with our long-standing one-China policy," National Security Council spokesperson Adrienne Watson was quoted as saying by the newspaper. Pelosi travelled to Taiwan in early August. It was her first visit by a US House speaker to the island since 1997. Pelosi became the highest-ranking US official to visit Taiwan in 25 years. China condemned Pelosi's trip, which it regarded as a gesture of support for separatism, and launched large-scale military exercises in the vicinity of the island Beijing considers Taiwan an unalienable part of its sovereign territory and opposes any official contact between the island and other countries. Beijing has said that the One China principle is a political foundation of China-US ties and that violations.

UK Leadership Hopeful Liz Truss Downplays Prospect Of Recession

LONDON: (AGENCY)

Tory leadership favourite Liz Truss downplayed Sunday the prospect of a UK recession, while the man tipped to be her finance minister vowed "help is coming" over the soaring cost of living. Truss, the frontrunner in polls to replace Rishi Sunak, and become Britain's next prime minister, pledged in an interview to lead a "small business and self-employed revolution" if in power. "There is too much talk that there's going to be a recession," Truss told The Sun on Sunday tabloid. "I don't believe that's inevitable. We can unleash opportunity here in Britain."



She argued that the UK should create the economic conditions to produce "the next Google or the next Facebook." "It's about that level of ambition," Truss



added. In a separate interview with the Mail on Sunday, Business Secretary Kwasi Kwarteng - who is expected to head the finance ministry in Truss's government - said he understood the "deep anxiety" sweeping Britain as decades-high inflation bit. "But I want to reassure the British people that help is coming," he added, telling the paper that work had started on "the best package of measures" to allow the next prime min-

ister to "hit the ground running."

Either Foreign Secretary Truss or finance minister Sunak will replace outgoing leader Boris Johnson after the result of the summer-long contest is announced on September 5. The victor, set to formally take power the next day, faces a daunting challenge, with the Bank of England predicting a recession later this year as well as continued rising prices.

Gove, who has held a raft of cabinet posts and previously stood to be Tory leader, instead endorsed Rishi Sunak for the top job. "I am deeply concerned that the framing of the leadership debate by many has been a holiday from reality," Gove said in an article in The Times newspaper. The answer to the cost-of-living crisis cannot be simply to reject further "handouts" and cut tax.

Briefs News

Daughter Of Russian Leader Known As "Putin's Brain" Killed By Car Bomb

MOSCOW: (AGENCY)

The daughter of Alexander Dugin, a hardline Russian ideologue close to President Vladimir Putin, has been killed in a car bombing on Moscow's outskirts, authorities said on Sunday. According to family members quoted by Russian media, Dugin - a vocal supporter of Kremlin's offensive in Ukraine - was the likely target of the blast as his daughter borrowed his car at the last minute.

Daria Dugina, born in 1992, was killed when a bomb placed in her Toyota Land Cruiser went off as she drove on a highway near the village of Bolshie Vyzomye, some 40 kilometres (25 miles) outside Moscow, Russia's Investigative Committee said in a statement.

Dugina died on the scene and a homicide investigation has been opened, said the committee, which probes major crime cases in Russia. Dugin, sometimes called "Putin's Rasputin" or "Putin's brain", is an outspoken Russian ultranationalist intellectual. He has long advocated the unification of Russian-speaking territories in a vast new Russian empire and wholeheartedly supported Moscow's operation in Ukraine. He was put on a Western sanctions list after Russia annexed Crimea in 2014, a move he also backed.

Carrier

Carrier Airconditioning & Refrigeration Ltd.

Registered Office: New Delhi-110020 India. Phone: +91-124-4825500. Fax: +91-124-2372200. Website: www.carrierindia.com Email: info@carrierindia.com

INFORMATION REGARDING 30th ANNUAL GENERAL MEETING

Dear Members,


- The Thirtieth Annual General Meeting ("AGM") of Members of the Carrier Airconditioning & Refrigeration Ltd. ("Company") will be held on **Wednesday, the 21st day of September, 2022 at 2:30 P.M. IST (Indian Standard Time)** through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with all applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and the Rules made thereunder read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 and 03/2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") to transact the business set out in the Notice calling the AGM. Members attending the AGM through VCOAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.
- In accordance with the said circulars of MCA, the Notice of AGM and the Annual Report for the Financial Year 2021-22 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached therewith will be sent only by email to all those Members whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.carrier.com/building-solutions/en/investor and also on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.
- Members holding shares in physical mode who have not registered / updated their email addresses with the Company and/or Registrar & Share Transfer Agent of the Company can register/update their email addresses and obtain the Notice of 30th AGM, Annual Report and other details for joining the 30th AGM through VCOAVM facility by sending scanned copy of the following documents by email to the Company or the Registrar & Share Transfer Agent to Register & Share Transfer Agent of the Company at admin@mcaregistrars.com and/or to info@carrierindia.com.

- Members holding shares in physical mode who have not registered / updated their email addresses with the Company and/or Registrar & Share Transfer Agent of the Company can register/update their email addresses and obtain the Notice of 30th AGM, Annual Report and other details for joining the 30th AGM through VCOAVM facility by sending scanned copy of the following documents by email to the Company or the Registrar & Share Transfer Agent to Register & Share Transfer Agent of the Company at admin@mcaregistrars.com and/or to info@carrierindia.com.
- Members holding shares in physical mode who have not registered / updated their email addresses with the Company and/or Registrar & Share Transfer Agent of the Company can register/update their email addresses and obtain the Notice of 30th AGM, Annual Report and other details for joining the 30th AGM through VCOAVM facility by sending scanned copy of the following documents by email to the Company or the Registrar & Share Transfer Agent to Register & Share Transfer Agent of the Company at admin@mcaregistrars.com and/or to info@carrierindia.com.

- Members holding shares in physical mode who have not registered / updated their email addresses with the Company and/or Registrar & Share Transfer Agent of the Company can register/update their email addresses and obtain the Notice of 30th AGM, Annual Report and other details for joining the 30th AGM through VCOAVM facility by sending scanned copy of the following documents by email to the Company or the Registrar & Share Transfer Agent to Register & Share Transfer Agent of the Company at admin@mcaregistrars.com and/or to info@carrierindia.com.
- Members holding shares in physical mode who have not registered / updated their email addresses with the Company and/or Registrar & Share Transfer Agent of the Company can register/update their email addresses and obtain the Notice of 30th AGM, Annual Report and other details for joining the 30th AGM through VCOAVM facility by sending scanned copy of the following documents by email to the Company or the Registrar & Share Transfer Agent to Register & Share Transfer Agent of the Company at admin@mcaregistrars.com and/or to info@carrierindia.com.

- Members holding shares in physical mode who have not registered / updated their email addresses with the Company and/or Registrar & Share Transfer Agent of the Company can register/update their email addresses and obtain the Notice of 30th AGM, Annual Report and other details for joining the 30th AGM through VCOAVM facility by sending scanned copy of the following documents by email to the Company or the Registrar & Share Transfer Agent to Register & Share Transfer Agent of the Company at admin@mcaregistrars.com and/or to info@carrierindia.com.
- Members holding shares in physical mode who have not registered / updated their email addresses with the Company and/or Registrar & Share Transfer Agent of the Company can register/update their email addresses and obtain the Notice of 30th AGM, Annual Report and other details for joining the 30th AGM through VCOAVM facility by sending scanned copy of the following documents by email to the Company or the Registrar & Share Transfer Agent to Register & Share Transfer Agent of the Company at admin@mcaregistrars.com and/or to info@carrierindia.com.

For Carrier Airconditioning & Refrigeration Limited - 8d/-
Place: Gurugram
Date: 20.08.2022
Company Secretary
FCS-10752

	फॉर्म नं.: v <p>समक्ष ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ</p> <p>पता: 600/ 1, कृतीवर्धनी रोड, निकट हनुमान सेतु गंदिर, लखनऊ-226007</p> <p>(न्यायक्षेत्र- उत्तर प्रदेश का भाग)</p> <p>जबाब दर्ल करने और हाजिरी हुए प्रक़ाशन द्वारा सनम पूरा आवेदन सं. 710 /2022</p> <p>(हस्तुती न्यायाधिकरण (प्रक्रिया नियमावली, 1993) के नियम 12 और 13 के साथ पठित बैंक और वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के तहत प्रतिसादित को सनम)</p> <p>दिनांक: 05.08.2022</p> <p>इंडराइंड बैंक लि.</p> <p>..... आवेदक</p> <p>बनाम</p> <p>मेसर्स सिटी नेटवर्कर्स लिमिटेड और अन्य</p> <p>नं. 1, सिटी नेटवर्कर्स लि., पंजीकृत कार्यालय: यूनिट 38, प्रथम तल, ए विंग, म्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट, पी.बी. मार्ग, वली मुहूर्ई-400013, अन्य पता: 4वीं तल, फिल्मसिटी-19, सेक्टर-16ए, नोएडा, उत्तरा प्रदेश-201301। अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से</p> <p>.....कर्जदार</p> <p>वी. पी. एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: 1वीं तल, 'ए विंग, नैशनल पार्कर्स, एनएच जोशी मार्ग, लोहार बस्ती, मुहूर्ई-400013 अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से</p> <p>.....जमानती</p> <p>उपस्थूल नामित आवेदन में आपको सनम प्रकाशन के बाद आवेदक या उसके कर्जील /प्राधिकृत एजेंट को प्रति देते हुए इस न्यायाधिकरण में स्वयं या अपने विधिकृत प्राधिकृत एजेंट या विधिक प्रतिस्तर के माध्यम से दस्तावेजों व शपथपत्र (यदि कोई हो) के साथ दो सेले में पेश कर कोर्म में जबाब दर्ल करना है, और इसके बाद 22.09.2022 को सनम पूरा- 1030 बजे काबिल पंजीकृत, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ के सभा हॉलमें होना है, अन्यथा आपकी गैर-हाजिरी में आवेदन की सुनवाई की जायेगी और निम्नित किया जायेगा।</p> <p>हस्ता./- ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ</p>
---	---

उपस्थूल नामित आवेदन में आपको सनम प्रकाशन के बाद आवेदक या उसके कर्जील /प्राधिकृत एजेंट को प्रति देते हुए इस न्यायाधिकरण में स्वयं या अपने विधिकृत प्राधिकृत एजेंट या विधिक प्रतिस्तर के माध्यम से दस्तावेजों व शपथपत्र (यदि कोई हो) के साथ दो सेले में पेश कर कोर्म में जबाब दर्ल करना है, और इसके बाद 22.09.2022 को सनम पूरा- 1030 बजे काबिल पंजीकृत, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, लखनऊ के सभा हॉलमें होना है, अन्यथा आपकी गैर-हाजिरी में आवेदन की सुनवाई की जायेगी और निम्नित किया जायेगा।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ के समक्ष (न्यायक्षेत्र-लखनऊ)	
कंपनी आवेदन सं. सीए (सीएल) 2022 को 38 की उप छ/ / एच आर वाई कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 को 18) धारा 230 व 232 के मामल में और	
प्रबंधन की संयोजन योजना के मामल में और	
निम्नालिखित मामल में	
आवेदक नं. 1 / हस्तांतरणकर्ता कंपनी	
जगुआर ओवरसीज लिमिटेड	
आवेदक नं. 2 / हस्तांतरित कंपनी / डिमर्जड कंपनी	
आवेदक नं. 3 / परिणामी कंपनी नं. 1	
और	
जगुआर ओवरसीज यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड	
आवेदक नं. 4 / परिणामी कंपनी नं. 2	

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ बेंच, चंडीगढ़ (‘ट्रिब्यूनल’) के आदेश दिनांक 16 अगस्त, 2022 (घोषणा की तिथि) ने डायनेमिक इलिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जगुआर ओवरसीज लिमिटेड, डायनेमिक इलिंग एंड ऑफ़शोर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और जगुआर ओवरसीज यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड और उनके शेयरधारकों और ऋणधारकों के बीच प्रबंधन की प्रस्तावित संयोजन योजना और अन्य संबंधित मामलों, यदि कोई है, पर विचार करने और, यदि सही लगता है, अनुमोदन के लिए डायनेमिक इलिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और जगुआर ओवरसीज लिमिटेड के अग्रिमूर्तित ऋणधारकों की अलग-अलग बैठकों की सूचना देने का निर्देश दिया है।

उक्त आदेश के अनुपालन में और उक्तमें निर्देशानुसार, **और सूचित किया जाता है कि डायनेमिक इलिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और जगुआर ओवरसीज लिमिटेड के अग्रिमूर्तित ऋणधारकों के अलग-अलग बैठक निम्नलिखित दिनांक के अनुसार संचालित, 24 सितंबर, 2022 को प्रातःविहाने छह बजे, रामनगर, सख्तवा-121022, हरियाणा में आयोजित की जाएगी**, उक्त प्रतिमूर्तित ऋणधारकों से समय व स्थान पर उपस्थित होने का अनुरोध है।

क्र.सं.	बैठक	समय
1.	डायनेमिक इलिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (हस्तांतरणकर्ता कंपनी) के अग्रिमूर्तित ऋणधारक	दोपहर 02.00
2.	जगुआर ओवरसीज लिमिटेड (हस्तांतरित) / डिमर्जड कंपनी) के अग्रिमूर्तित ऋणधारक	दोपहर 03.00

प्रबंधन की संयोजन योजना, व्याख्यात्मक विवरण (कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 230 व 232 के तहत और कंपनीज (व्यवनबद्धता, प्रबंधन और साममेलन) नियमवली, 2016 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है) की प्रतियां, प्रांकी की प्रतियां, उपस्थितित रित्पत्र और अन्य दस्तावेज, यदि कोई है, बैठकों की तिथि तक सुबह 11.00 से शाम 4.00 बजे के बीच सूचना की तिथि से किसी कार्यदिनर तिथि (शनिवार को छोड़कर) निशुक्र संबंधित कंपनी के पंजीकृत कार्याल 1094-पी, सेक्टर-46, गुडगांव-122001 हरियाणा, ई-मेल आईडी: info@edwsp.com/contact@ jaguaroaverseas.com या उनके कार्यालय परिसर में श्री राजीव गौयला, मेसर्स राजीव गोयल एंड एसोसिएट्स, एडवांस्ड एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 785, पीकेट ई, मयूर विहार-1, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस वे / एनएच-9 दिल्ली-110091, भारत, ई-मेल: rajeev391@gmail.com वेबसाइट: www.rgalegal.in से प्राप्त किए जा सकते हैं। उपरोक्त दस्तावेज निम्नलिखित वेबसाइट पर भी दिए गए हैं।

विवरण	वेबसाइट
डायनेमिक इलिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	www.dwdsp.com
जगुआर ओवरसीज लिमिटेड	www.jaguaroaverseas.com
बैठकों में उपस्थित होने और वोट डालने के पात्र व्यक्ति व्यक्ति या प्रांकी द्वारा उक्त बैठकों में उपस्थित व वोट डाल सकते हैं जो निर्धारित फॉर्म में संबंधित प्रांतियां संबंधित बैठकों के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले, उसके बाद नहीं, उक्त वर्णित अनुसार हस्तांतरणकर्ता कंपनी और हस्तांतरित / डिमर्जड कंपनी के संबंधित पंजीकृत कार्यालय में जमा की जानी चाहिए। प्रांकी का फॉर्म हस्तांतरणकर्ता कंपनी और हस्तांतरित / डिमर्जड कंपनी के संबंधित पंजीकृत कार्यालय से लिया जा सकता है।	
ट्रिब्यूनल ने उपरोक्त बैठकों के लिए श्री जसमीत सिंह भाटिया, अधिवक्ता को कॉमन अध्यक्ष और श्री आदित्य जैन, अधिवक्ता को कॉमन वैकल्पिक अध्यक्ष और श्री गुलशन कुमार जैन, चार्टर्ड एकाउंटेंट को कॉमन जायवता के रूप में नियुक्त किया है।	
उक्त वर्णित प्रबंधन की संयोजन योजना, यदि बैठकों में अनुमोदित है, के बाद माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के अग्रिमूर्तित का विवरण होगा।	
दिनांक: 18 अगस्त, 2022	

कें माध्यम से,	हस्ता./- जसमीत सिंह भाटिया, अधिवक्ता	हस्ता./- राजीव गौयल एड एसोसिएट्स
	बैठकों के कॉमन अध्यक्ष	आवेदकों के परामर्शक
785, पीकेट-ई, मयूर विहार-1, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे / एनएच-9, दिल्ली 110091		
E-Mail: rajeev391@gmail.com, Web-site: www.rgalegal.in		



कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लि..

सीआईएन: U74999HR1992FLC036104


पंजीकृत कार्यालय: नरसिंहपुर, खेकरी दौला पोस्ट, गुडगांव 122 001, हरियाणा फोन: +91-124-4825500; फैक्स: +91-124-2377220

वेबसाइट: www.carrierindia.com, ईमेल: secretarial@carrier.com

30वीं वार्षिक आम बैठक से सम्बन्धित सूचना

प्रिय सदस्य,	
1. कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुलाने की सूचना में वर्णित व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अधिनियम परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 एवं 02/2022 दिनांक 8 अगस्त 2020, 13 अक्टूबर 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021 एवं 5 मई 2022 क्रमशः एवं अन्य लागू अधिसूचना /परिपत्र के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके अंतर्गत बने नियमों के समी लागू प्रावधानों के अनुपालन में विडियो कांफ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडिओल माध्यमों ("ऑपवीएम") के माध्यम से बुधवार, 21 सितंबर, 2022 को दोपहर 2.30 बजे (भारतीय मानक समय) पर आयोजित की जायेगी। वीसी /ऑपवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत कार्यों को पूरा करने के लिए की जाएगी।	
2. एमसीए के उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट/वित्तीय विवरण, बांडों की रिपोर्ट, डिजाम्पर अधिनियम की रिपोर्ट और इसके साथ सलन होने के लिए अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं, केवल उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जा रही है जिनके ई-मेल कंपनी या डिजिटल/डिजिटल प्रतियां गिों के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.carrier.com/buildingsolutions/en/investor और स्ट्रेंडल डिजिटल/डिजिटल सर्विसेज (इडिय) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।	
3. ई-मेल रजिस्टर /अपडेट करने का तरीका: <ul style="list-style-type: none">मौलिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई-मेल कंपनी और/या कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ पंजीकृत /अपडेट नहीं हैं, वे अपने ई-मेल पंजीकृत /अपडेट करा सकते हैं secretarial@carrier.com पर कंपनी और/या admin@mcsgregistrars.com पर कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट को ई-मेल में जानकारी देना दस्तावेजों की स्कैनड प्रति भेजकर वीसी /ऑपवीएम सूचना द्वारा 30वीं एजीएम से जुड़ने के लिए लॉग-इन विवरण, 30वीं एजीएम की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। i) अपना नाम, फोलियो नंबर व पता वर्णित करते हुए एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र ii) पैन कार्ड की स्व – सत्यापित प्रति iii) सदस्य के पते के लिए किसी दस्तावेज (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान कार्ड, पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित	
गैर मौलिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई-मेल डिजिटल/डिजिटल प्रतियां गिों के साथ रजिस्टर /अपडेट नहीं हैं, वे अपने डिजिटल/डिजिटल प्रतियां गिों के साथ अपने ई-मेल रजिस्टर /अपडेट करा सकते हैं। आपको www.carrier.com/buildingsolutions/en/investors पर प्रक्रिया की जांच करने और मौलिक शेयरों को डीमैटरियलाइज्ड शेयरों में बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।	
4. ई-वोटिंग द्वारा वोट डालने का तरीका: <ul style="list-style-type: none">कंपनी ने 30वीं एजीएम की सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई वोटिंग की सुविधा दी है। कंपनी ने एजीएम के दौरान ई-वोटिंग ("ई-वोटिंग") सिस्टम द्वारा वोटिंग करने की सुविधा भी दी है। रिमोट ई-वोटिंग /ई-वोटिंग एवं वीसी /ऑपवीएम द्वारा एजीएम में भाग लेने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम सूचना में विस्तारित की गई है जो कि आपको शीघ्र ही भेज दिया जाएगा और यह कंपनी की वेबसाइट www.carrier.com/buildingsolutions/en/investors पर भी उपलब्ध होगा।	
सदस्य एजीएम के दौरान ई-वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में टिप्पणियों में दिए गए निर्देशों को अपनकर लॉग-इन क्रेडेंशियल जनरेट कर सकते हैं। लॉग-इन क्रेडेंशियल वीसी /ऑपवीएम के द्वारा एजीएम में भाग लेने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।	
वीसी /ऑपवीएम के द्वारा एजीएम से जुड़ने की प्रक्रिया, रिमोट ई-वोटिंग व एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सूचना के लिए एजीएम की नोटिस के दिनांकियों में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लिमिटेड, खेकरी दौला पोस्ट, नरसिंहपुर, गुडगांव -122001 ई-मेल: secretarial@carrier.com और/या कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट एमसीएएस शेयर हस्तांतरण एजेंट लि एच-65, पटली नीली, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फ्लॉर-1, नई दिल्ली 110020 ई-मेल: admin@mcsgregistrars.com को लिख सकते हैं। सदस्यों को कंपनी /कंपनी के रजिस्ट्रार व शेयर हस्तांतरण एजेंट के साथ सभी संचार में फोलियो नंबर लिखना आवश्यक है।	

कैरियर एयरकंडीशनिंग एंड रेफ्रीजरेशन लिमिटेड	
हस्ता./- सूरज अरोड़ा	
स्थान: गुडगांव	कंपनी सचिव
दिनांक: 20.08.2022	एफ सी सं. 10752

PUBLIC NOTICE			
NOTICE is hereby given that the below mentioned Sub Broker /Authorised Person is no longer affiliated as Sub Broker /Authorised Person of Kotak Securities Limited.			
Sub Broker/ Authorised Person Name	Trade Name	Exchange Registration Numbers of Sub Broker / Authorised Person	Address of Sub Broker/ Authorised Person
Reena Gola	Reena Gola	NSE - AP0291111161 MCX - 139363	1108 3rd Floor Karam Pura Ramesh Nagar, Rajouri Garden West Delhi Delhi 110015
Please note that above mention Sub Broker (SB)/Authorised Person (AP) is no longer associated with us. Any person henceforth dealing with above mention SB/AP should do so, at their own risk. Kotak Securities Ltd. shall not be liable for any such dealing. In case of any queries for the transactions till date, Investors are requested to inform Kotak Securities Ltd. within 15 days from the date of this notification, failing which it shall be deemed that there exists no queries against the above mentioned SB/AP.			
 Kotak Securities Limited, Registered Office: 27 BKC, C 27, G Block, Bandra Kurla Complex, Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. CIN: U99999MH1994PLC134051, Telephone No.: +22 43360000, Fax No.: +22 67132430. Website: www.kotak.com / www.kotaksecurities.com . Correspondence Address: Infinity IT Park, Bldg. No 21, Opp. Film City Road, A K Vaidya Marg, Malad (East), Mumbai-400027. Telephone No: 42858625, SEBI Registration No. INZ00000137 (Member of NSE, BSE, SME, MCX & NCDEX), AMFI ARN 0164, PMS INP00000258, and Research Analyst INH00000586. NSDL/CDSL: IN-IN-DP-829-2021. Compliance Officer Details: Mr. Sanjayu Nair Call: 022-42858484, or Email: ks.compliance@kotak.com .			

कच्चा सूचना						
एडलवेडिस एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड						
CIN - U67100MH2007PLC174759						
रिटेल सेंट्रल व पंजीकृत कार्यालय: एडलवेडिस हाउस, ऑफ सी.ए.टी. रोड, कलिना, मुंबई-400 098.						
चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां वर्णित प्रतिभूति ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए ऋणी(सी) को बुलाने के लिए यहां नीचे वर्णित अनुसार मांग सूचना जारी की थी।						
इसके बाद यहां वर्णित एसाइनर ने एडलवेडिस एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड , यहां नीचे वर्णित ट्रस्ट (यहां के बाद "ईएआरसी" के रूप में संदर्भित) के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कारगर को वित्तीय परिसंपत्तियां एसाइन की थी। सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अंतर्गत एसाइनमेंट अनुबंध के अनुपालन में, ईएआरसी ने ऋणी द्वारा ली गई वित्तीय सहायता के संबंध में ईएआरसी में निहित प्रतिभूति हितों, गारंटी, वादों के सहित वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में एसाइनर के सभी अधिकारों, टाइटल और हितों व एसाइनर के कार्यों को किया है और ईएआरसी ने प्रतिभूति ऋणदाता के सभी अधिकारों को वालन किया है।						
ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एडलवेडिस एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोदस्ताक्षरी ने प्रत्येक संपत्ति के लिए वर्णित तिथि पर प्रतिभूति हित प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूति संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है। ऋणी को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को एतद्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया व्यवहार नीचे वर्णित राशि व वसपर ब्याज के लिए एडलवेडिस एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।						
एसाइनर का नाम	ट्रस्ट का नाम	ऋण खाता संख्या	ऋणी का नाम व सह-ऋणी(यों) का नाम	मांग सूचना की राशि व तिथि	कब्जे की तिथि	कब्जे की स्थिति
1	इंडस्रइंड कं.लि. ('आईएनएल/ एसाइनर')	HDD000 70N	मेसर्स श्री बालाजी ओरानोमेंट ज्वेलर्स इसके मालिक श्री बॉबी वर्मा (ऋणी) द्वारा श्री बॉबी वर्मा, श्रीमती सीता वर्मा, श्री मनजीत वर्मा, श्रीमती सीमा वर्मा, श्री महेश चंद वर्मा व श्रीमती प्रेम लता वर्मा (सह-ऋणी)	रु. 2,49,90,645.06 /- (रुपए दो करोड़ उन्नीस लाख नब्बे हजार छह सौ पैतालीस व छह पैसे केवल) 18.02.2021 तक	29.07.2022	भौतिक कब्जा

NOTICE FOR E-AUCTION SALE OF ASSETS UNDER INSOLVENCY & BANKRUPTCY CODE 2016		
Date & Time of Auction: 07.09.2022 From : 3:00 pm to 4:00 pm	Last date for Submission of EMD alongwith Bid& Declaration Forms : On or before:05.09.2022	Site visit and Inspection: 22.08.2022 to 03.09.2022
Sale of assets owned by M/s.Tecpro Systems Ltd (In Liquidation) forming part of the liquidation estate by the Liquidator appointed by the Hon'ble NCLT, Principal Bench, New Delhi vide its Order No.C.A.2683 (PB) / 2019 Filed in (IB)-197(PB)/2017 dated 16.1.2020, empowered under Section 35(1)(f) of IBC, 2016, read with Regulation 33 of IBBI (Liquidation Process) Regulation 2016. The sale will be done by the undersigned through e-auction platform at the web portal of https://nctauction.auctiontiger.net .		

S.No.	Particulars	Description of Properties	Reserve Price (Rs.)	EMD Amount (Rs.)
1	Gurgaon	Commercial building, Plot No.78, Sector-34, EHTP, Gurgaon. Land area:3948 sq.meters, building measuring 1,54,922 sq.ft	42.60 Crores	4.26 Crores
2	Siruseri, Chennai	Commercial building, Plot No.A-17, SIPCOT IT Park, 5th Cross Road, Siruseri. Land area: 1.acre, building measuring 1,43,020 sq.ft	32.00 Crores	3.20 Crores
3	Pune	Commercial space measuring 24,90sq.ft. Opp. Kasarvadai Railway Station, in part of Basement, Ground Floor, Third Floor, Fourth Floor.	20.50 Crores	2.05 Crores
4	Bawal	Industrial Property Plot No.2, 3, 4, 25 & 26, Sector-7, HSIDC Growth Centre, Bawal. Land: 16.875 sq. meters, Near Harley Davidson	24.75 Crores	2.475 Crores
5	Bhiwadi 1	Plot No.SP-496, 497 RIICO Indl Area, Bhiwadi, Alwar Dist, Rajasthan Land area: 40,110 sq meters	35.76 Crores	3.576 Crores
6	Bhiwadi 2	Plot no. 928, RIICO Industrial Area, Bhiwadi, Alwar, Rajasthan. Area 43,055.64 Sq ft	4.00 Crores	0.40 Crores

Note: Interested bidders can also apply in Lots as per details given below. Bids received for Composite Lot No. 1) will have preference over Lot 2 & 3. Similarly, bids received for Lot No 2 & 3 will have preference over any single individual bidding

The sale will be done through public e-auction at <https://ncltauction.auctiontiger.net> on **07.09.2022 from 3.00 pm to 4.00 pm** with unlimited extension of 5 minutes each in case a fresh bid is received in the last 5 minutes of the E-auction. The increase in bid amount shall be in multiples of Rs. 5,00,000/- for all properties as above.

The E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS", "WHATEVER THERE IS BASIS" AND "WITHOUT RECOURSE BASIS" through approved E-auction service provider - e-procurement Technologies Ltd (Auction Tiger). E-Auction sale notice and E-Auction tender documents containing online bid form, Declaration, General Terms & Conditions of online auction sale is available on website <https://ncltauctiontiger.net>. Interested bidders will have to search for the above mentioned Company by using either of the two options: 1. **Company Name (Tecpro Systems Ltd.) or by state and property type. Interested bidders can contact Mr. Praveen Kumar Thevar at +91-9722778828, 079-40005422, E-mail : Praveen.thevar@auctiontiger.net, E-mail : tamilnadu@auctiontiger.net**

The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn / postpone / cancel the e-auction or withdraw any property or portion thereof from the auction proceeding at any stage without assigning any reason thereof.


The property, assets, business and other affairs of **M/s Tecpro Systems Ltd. (in liquidation)** are being managed by the Liquidator, Mr. Ramachandran Subramanian, who acts as agent of M/s. Tecpro Systems Ltd. duly appointed by Hon'ble NCLT, Principal Bench, New Delhi, without any personal liability.

For further information, please contact the undersigned on +91-9790721417 or write atsubraman267@yahoo.com.

The successful bidder has to remit the entire bid amount after adjusting the EMD already paid within 15 Days from the date of E-auction i.e. on or before **22.09.2022**. The timeline for payment of final sale consideration may be extended at the sole discretion of Liquidator to the extent permissible under the applicable laws and regulations. In case the final sale consideration is not paid within the timeline, the Liquidator shall forfeit the EMD.

Place : Chennai
Date : 22.08.2022

Ramachandran Subramanian, Liquidator, Tecpro Systems Ltd
IBBI/PA-001/P/P-01440/2018-19/12136

 <div> <div>ADITYA BIRLA CAPITAL</div> <div>PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING</div> </div>			
<div>आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड</div>			
<p>पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयॉन कम्प्लाईड, वेरावल, गुजरात-362266</p> <p>शाखा कार्यालय: प्रथम तल, विजया बैंक बिल्डिंग, प्लॉट नं. 17, बाराखवा रोड, नई दिल्ली-110001</p>			
<div>मांग सूचना धारा 13(2) के तहत</div>			
<p>आप अधोलिखित कर्जदार ने अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति के बंधन द्वारा ऋण प्राप्त किया है और आप अधोलिखित ऋण करार के लिए कर्जदार /सह-कर्जदार जमानती बने हैं। आपके द्वारा की गई वृद्धों के फलस्वरूप वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संशोधन में संशोधनी अधिनियम) के तहत आपका ऋण खाता एनपीए वर्गीकृत किया गया है। हम आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड ने आपके द्वारा दिए गए पते पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) यथासंशोधित के साथ पठित धारा 13(2) के तहत मांग सूचना जारी की थी। उक्त सूचनाओं की विषय-वस्तु है कि आपको प्रदान विविध ऋणों के भुगतान में आपने ऋक की है। इसलिए, संशोधनी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार यह प्रकाशन सूचना देने के लिए किया गया है।</p>			
<div> <div>ऋण खाता सं./खाता, कर्जदार(ओं)</div> <div>और जमानती(ओं) के नाम और पते</div> </div>		<div> <div>प्रवर्तन की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण</div> <div>20.07.2022</div> </div>	<div> <div>मांग सूचना / एनपीए की तारीख</div> <div>20.07.2022</div> </div>
<div> <div>उत्पन्न - संपत्ति के विवरण ऋण</div> <div>ऋण खाता सं., HCFDELLC090001000782, HCFDELLTER00001000783, HCFDELLTER00001000784, HCFDELLTER00001000953 और 80003567</div> <div>1. श्री जगन्नाथ मेहोरिलख पञ्चकेशनन ट्रस्ट, स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, मेरठ सोनीपत रोड, निकट नरैस्को कंपनी, पत्तरी, सोनीपत, हरियाणा-131001</div> <div>अन्य पता: 450, दूसरा तल, सैनिक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034</div> <div>2. विनय कुमार कोहली, 5054, पार्कर रेजीडेंसी, जी.टी. रोड, निकट पार्कर मॉल, सोनीपत, हरियाणा-131024</div> <div>अन्य पता: 450, दूसरा तल, सैनिक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034</div> <div>3. अंशु कोहली, 5054, पार्कर रेजीडेंसी, जी.टी. रोड, निकट पार्कर मॉल, सोनीपत, हरियाणा-131024</div> <div>अन्य पता: 450, दूसरा तल, सैनिक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034</div> <div>4. शशि, मकान नं. 118ए, एन. 1, सरसंजनी कालोनी, जगधरी, मुमुता नगर, हरियाणा-135001</div> <div>अन्य पता: 450, दूसरा तल, सैनिक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034</div> <div>5. कृष्णा कुमारी, 41, काननखुर्द रोड, शिवपुरी-ए. जगधरी, मुमुता नगर, हरियाणा-135001</div> <div>अन्य पता: 450, दूसरा तल, सैनिक विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-110034</div> </div>		<div> <div>निम्न संपत्तित के सभी मांग व बंधः "खसरा" नं. 25/ 19/ 2/ 2, 11/ 12/ 1/ 1, 19/ 2/ 2/ 2, 2/ 1. 9/ 1-2, 10, पक्की कलां, जिला सोनीपत, हरियाणा-131023"</div> <div>20.07.2022</div> </div>	<div> <div>र. 20,57,08,283 /- (रुपये बीस करोड़ सत्तवन लाख आठ हजार दो सौ सिरासी मात्र) बकाया मूलधन, बकाया (प्रोदुक्ता विलंब प्रभारों सहित) (टीडीएफ शामिल नहीं) 19 जुलाई, 2022 तक नोटिस की तारीख से 60 (साठ) दिनों के अंदर, कोई ब्याज और पीनल ब्याज, टीडीएफ और/ या अन्य प्रभारों जो बकाया राशि के पूरे भुगतान तक इस पर देय हों, सहित</div> <div>र. 20,57,08,283 /-</div> </div>

